

## प्रेस नोट दिनांक-12.09.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जयसवाल के निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेंद्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम तथा उनकी टीम द्वारा गुमशुदा अतुल द्विवेदी पुत्र राम प्रकाश द्विवेदी को सूचना के 9 घंटे के अंदर बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 11.09.2021 को थाना कोतवाली कर्वी में राघवराम पुत्र उमादत्त निवासी खरौंद थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गई कि उनका भतीजा अतुल द्विवेदी पुत्र राम प्रकाश द्विवेदी उम्र 25 वर्ष अपनी मैजिक गाड़ी से बिना बताए कहीं चला गया है जिसे काफी ढूंढा गया तो मिला नहीं। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में गुमशुदागी दर्ज कर युवक की बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री राधेश्याम को लगाया गया। उ0नि0 श्री राधेश्याम एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास किये गये जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए सर्विलांस टीम की मदद से युवक अतुल द्विवेदी को ग्राम तरौंहा से समय करीब 21:30 बजे बरामद कर परिवारीजनों को सुपुर्द किया गया।

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी गोलू भार्गव थाना कोतवाली कर्वी
3. आरक्षी आशीष यादव सर्विलांस सेल

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजापुर पुलिस ने 01 वाँछित/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उ०नि० श्री राधाकृष्ण तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 137/2016 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के वाँछित अभियुक्त लाला उर्फ पंकज जायसवाल पुत्र भानू जायसवाल निवासी ग्राम डढ़िया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री राधाकृष्ण तिवारी चौकी गनीवा थाना राजापुर।
2. आरक्षी शुभम द्विवेदी
3. आरक्षी दिनेश कुमार

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज- 3.0 के अन्तर्गत श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 12.09.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर एवं रेलवे स्टेशन मानिकपुर के आस-पास भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में लूपलाइन चौराहा, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी मंदिर एवं बाजार में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कलचिहा व कोलमजरा में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम भेड़ा एवं कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा पुरानी बाजार, धुस मैदान, पुरानी कोतवाली चौराहा, तरौंहा एवं एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया ।